

3 Best Ayatul Kursi in Hindi HD Images & Wallpapers with Meanings

Ayatul Kursi आयतुल कुर्सी कुरआन-ए-पाक की सबसे अजीमुशान आयत-ए- मुबारिका है। यहाँ आप पीसी, मोबाइल और प्रिन्ट आउट के लिए आयतुल कुर्सी इन हिन्दी एच डी इमेजिज़ (Ayatul Kursi in Hindi HD Images) डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और किसी जुबान में वॉलपेपर की ज़रूरत हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताइए!



एक हदीस की मफहूम

हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करे तो उसको जन्नत में दाखिल होने के लिए सिवाय मौत के कोई चीज़ की रोक नहीं है, यानी मौत के बाद फ़ौरन वो जन्नत के आसार और राहत व आराम को देखने लगेगा।

आयतुल कुर्सी का मतलब क्या है?

आयतुल कुर्सी सूरह नम्बर 2 सूरह अल-बकराह की आयत नम्बर 255 है।

ये आयत कुरआन पाक की बहुत ही रुतबे वाली है है।

इस आयत में अल्लाह त'आला की ज़ाती सिफहाती तौहीद का बयान एक बड़े ही अजीब-ओ-गरीब अन्दाज़ में किया गया है।

जिसमें अल्लाह जल्ला शानहु का मौजूद होना, ज़िन्दाह होना, सुनने वाला होना और देखने वाला होना कलाम करने वाला होना अपनी ज़ात से मौजूद होना, हमेशा से होना और हमेशा बाक़ी रहने वाला होना सारी कायनात का मूजिद और ख़ालिक होना, तब्दीलियों और तास्सुरात से ऊपर होना, तमाम कायनात का मालिक होना, बड़ाई और बुजुर्गी वाला होना के उसके आगे कोई बग़ैर उसकी इजाज़त के बोल नहीं सकता।

Ayatul Kursi Hindi Text Main

एक दम सही हुरूफ़ के साथ

1. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल, 'हय्युल क़य्यूम,
2. ला ताअ ख़ुजूहू सिनतुंव्व-वला नव-मुन,
3. लहू माफ़िस्स-समावाति वमा फिल अर्द,
4. मन-ज़ल्लज़ी यशफ'ऊ 'इन्द'हू इल्ला बि-इज़निह,
5. य'अ-लमु मा बयना अयदी-हिम व-मा ख़ल'फ़हुम,
6. वला यु'हीतूना बिशै'य इम्मिन 'इल्मिही इल्ला बिमाशा-अ,
7. वसि-'अ कुर्सियु'हुस-समावाति वल अर्द,
8. वला य-ऊदुहू 'हिफ़'जुहूमा, व हुवल 'अलिय्युल 'अज़ीम।

Ayatul Kursi Ka Hindi Main Tarjuma

1. अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं (वह) ज़िन्दा है
2. (और) सबका थामने वाला उसको न ऊँघ आती है न नींद,
3. आसमानो और ज़मीन में जो कुछ है (गरज़ सब कुछ) उसी का है
4. कौन ऐसा है जो बग़ैर उसकी इजाज़त के उसके पास किसी की सिफ़ारिश करे

5. जो कुछ उनके सामने मौजूद है (वह) और जो कुछ उनके पीछे (हो चुका) है (खुदा सबको) जानता है
6. और लोग उसके इल्म में से किसी चीज़ पर भी अहाता नहीं कर सकते मगर वह जिसे जितना चाहे (सिखा दे)
7. उसकी कुर्सी सब आसमानों और ज़मीनों को घेरे हुए है
8. और उन दोनों (आसमान व ज़मीन) की निगेहदाश्त (हिफाज़त) उसपर कुछ भी मुश्किल नहीं और वही सबसे बरतर अज़मत वाला है।

Ayatul Kursi in Hindi HD Images With Meanings (Colored Wallpaper For Mobile)

मोबाइल के लिए आयतुल कुर्सी (मतलब के साथ) का रंगीन वॉलपेपर

آلہ اللہ اللہ اللہ اللہ

आलिशान आयतुल कुर्सी

अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल, हय्युल कय्यूम,
ला ताअ खुज़ूहू सिनतुव्व-वला नव-मुन,
लहू माफिस्स-समावाति वमा फिल अर्द,
मन-ज़ल्लज़ी यशफ'ऊ इन्द'हू इल्ला बि-इज़निह,
य'अ-लमु मा बयना अयदी-हिम व-मा खल'फ़हुम,
वला यु'हीतूना बिशै'य इम्मिन 'इल्मिही इल्ला बिमाशा-अ,
वसि-'अ कुर्सियु'हुस-समावाति वल अर्द,
वला य-ऊदुहू हिफ़ जुहमा, व हुवल 'अलिय्युल 'अज़ीम।

तर्जुमा

अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं (वह) जिन्दा है (और) सबका थामने वाला उसको न ऊँच आती है न नींद आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है (गरज़ सब कुछ) उसी का है कौन ऐसा है जो बगैर उसकी इजाज़त के उसके पास किसी की सिफ़ारिश करे जो कुछ उनके सामने मौजूद है (वह) और जो कुछ उनके पीछे (हो चुका) है (खुदा सबको) जानता है और लोग उसके इल्म में से किसी चीज़ पर भी अहाता नहीं कर सकते मगर वह जिसे जितना चाहे (सिखा दे) उसकी कुर्सी सब आसमानों और ज़मीनों को घेरे हुए है और उन दोनों (आसमान व ज़मीन) की निगेहदाश्त (हिफाज़त) उसपर कुछ भी मुश्किल नहीं और वही सबसे बरतर अज़मत वाला है।

Copyright ©2020

FB/yaALLAHyaRasul | Twitter/yaALLAHyaRasul | YouTube/yaALLAH | Website Official

Akhir Ayatul Kursi Dikhne Mein Kaisi Hogi?

आयतुल कुर्सी आखिर दिखने में कैसी होगी?

मफहूम मुबारक

इब्न कसीर ने सय्यदिना अबू अल-ज़र्र गप्फारी अल कीनानी से बयान किया के इन्होंने आप मुहम्मद ﷺ से पूछा के आयतुल कुर्सी क्या है? और वो कैसी दिखती है?

आप मुहम्मद ﷺ ने फरमाया:

क्रसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है की सात जन्नत और ज़मीन की मिसाल कुर्सी के मुक़ाबले में ऐसी है जैसे एक बड़े मैदान में कोई हल्का (छल्ला, गोल चीज़) अंगूठी जैसा डाल दिया जाए।

एक दूसरी रिवायत में ये भी आता है के 'अर्श के सामने कुर्सी की मिसाल भी ऐसी ही है जैसे एक बड़े मैदान में अंगूठी का छल्ला। तफ़सील से यहाँ पढ़िए- [आयतुल कुर्सी की खास फ़ज़ीलत हदीस में](#)

Ayatul Kursi in Hindi HD Image With Arabic Line-by-Line Translation



yaALLAH.in

Join ya ALLAH Community!

Follow yaALLAH Website→ [Follow yaALLAH](#)

Subscribe YouTube Channel→ [yaALLAH Website Official](#)

Instagram par Follow Kijiye→ [instagram.com/yaALLAH.in](https://www.instagram.com/yaALLAH.in)

Facebook Group→ [FB.com/Groups/yaALLAHu](https://www.facebook.com/Groups/yaALLAHu)

Official Facebook Page→ [FB.com/yaALLAHyaRasul](https://www.facebook.com/yaALLAHyaRasul)

Follow alimraraza on FB→ [FB.com/alimranraza](https://www.facebook.com/alimranraza)

yaALLAH.in